



January 8, 2025

#### The BSE Limited

Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

**SCRIP CODE: 543066** 

SECURITY: Equity Shares/Debentures

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex. Bandra (E), Mumbai - 400 051

SYMBOL: SBICARD

SECURITY: Equity Shares

Dear Sirs,

Re: <u>Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u> Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements - Notice of Postal Ballot (including Remote E-voting)

In continuation of our letter dated January 7, 2025, please find enclosed the copies of newspaper advertisements published in 'Business Standard' - all editions (English and Hindi) on January 8, 2025 with respect to completion of dispatch of Notice of Postal Ballot (including Remote E-voting) to the Members.

The advertisements may also be accessed on the website of the Company at www.sbicard.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SBI Cards and Payment Services Limited

Payal Mittal Chhabra Chief Compliance Officer & Company Secretary Date of Event: - January 8, 2025; Time: NA

# 10th oil and gas bidding round only after passage of oilfield Bill

Upcoming legislation meant to streamline exploration and production

The Dith, 7 is many

The Dith, 7 is many

The Poly of and gas assets will be announced to the Carlo of and gas assets will be announced to the Carlo of an announced to the Carlo of the Ca

More importantly, it introduces an easter regime for doing business and streamlines approval processes, which have been pointed out as "difficult" by global maiors. Here global majors like Chevron, ExconMobil, and Total Energies, offi-cials said. "As a result of the reforms envisaged under the Olifields Amendment Bill, we are hopeful the



**BIG PLANS** 

m \$100 billion E&P opportunities in India by 2030 outlined by the Centre

2030 outlined by the community of the service of th by decade-end

■ 144 exploratory blocks awarded by Centre so far under 8 bidding rounds m 99% erstwhile 'no-go' areas in India's exclusive economic zone opened up

upcoming Open Acreage Licensing Policy (OALP)-X round will receive considerable interest from global players. The period of the ambiguity. Firms had praised the gov-ernment's move to incorporate a larger set of hydrocarbons in the new Bill. For

set of hydrocarbons in the new Bill. For example, it introduces the term 'Mineral Olis' in place of 'Oils', and brings a wide enge of mineral oils, including shale oil, gas hydrates, and coal bed methane, within its ambit. The Centre estimates 65.1.8 million metric tonnes of recover-able crude oil reserves and 1.3.86 billion cubic metres of recoverable natural gas

reserves within India's 3.36 million square kilometre sedimentary basin. By the time the Budget session. By the time the Budget session was a series of the budget session and the budget session was a series of the budget session and the budget session was a series of the budget session and the budget session session and the budget session and

first took charge. Under OALP, India allows upstream Under OALP, India allows upstucant companies to carye out areas for oil and gas exploration. Exploration companies can submit an expression of inferest for any area throughout the year. Such interests are accumulated three times a year, after which the areas sought are put up for auction.

# REC to sell ₹2.848 crore NPAs in Corporate Power

State-womed REC Ltd is looking to sell bad loars worth 22-84 Crore in Corporate Power Ltd (CPL) and has invited counterbids via a Swiss challenge acution, initiated by an anchorbid of SEA65 crore. This would result in a recovery of just 2.08 per cent if no counter bids are received by the lender, or a haircut of almost 98 per cent, if no counter bids are received. CPL is a special purpose welfick (SPV) of the Abbijeet group incorporated in 2006 to set up a 540 megawat (I MW) power plant in Latchar district of Jharkhand, currently, CPL is undergroup incorporated in 2006 to set up a 540 megawat (I MW) power plant in Latchar district of Jharkhand, currently, CPL is undergroup in comparison to the consortium of lenders, where it is studied to the consortium of lenders, where it is studied to the lender of the consortium of lenders, where it is studied to lender in the liquidation. REC's exposure to CPL as consortium of lenders, where it is studied to lender in the liquidation process.

The state-owned lender, which provides long-term loans and other financing products to government and private companies for infrastructure development, has invited expressions of interest (Eals) from entities interested in acquiring the Bad loans by January 28. Counterbids must be submitted by leading and the provisions of the state-owned lender, which provides long-term leans and other financing products to government and private companies for infrastructure development, has invited expressions of interest (Eals) from entities interested in acquiring the Bad loans by January 28. Counterbids must be submitted by Perhanar 2. With the Swiss challenges aucine in the provides long-term than the provides long-term and the provides long-term leans and other land the provides long-term and the provides long-term and the provides long-term leans and other land the provides long-term leans and other land the provides long-term leans and

invited expressions of interest (tools) from enti-ties interested in acquiring the bal loans by January 28. Counterbids must be submitted by Pebruary 2, with the Swiss challenge auction scheduled for February 5. Additionally, the lender has stated that the counterbids will have to be placed on a full cash basis, and with a markup of all least 3 carero ever the anchor bid. If there are any counterbids, the anchor bid-

der will have the option to either match the counter bid or submit a higher bid. However, if never the counter bid or submit a higher bid. However, if never the counter between the counter bid will be declared the successful of the successful will be declared the successful will be declared the successful will be a RECS contribution toward unpaid liquidation cost amounting to 419.5 core over and above the bid amount of \$\$8.65 crore. CPI. was admitted into insolvency, and a core of the successful will be a recommendation of \$\$1.00 cm. The was admitted to the solvency and a core of the was admitted to the solvency, and a core of the was admitted into insolvency, and a core of the successful will be a successful to the successful will be a successful to the suc

filed, and the National Continuity Law Firedow (NCLT) approved it. In October last year, the enforcement direc-torate (ED) attached assets worth \$500 crore in a \$4,000 crore bank fraud and money launder-ing case against CPL and its promoters and directors Manoj Jayaswal, Abhijeet Jayaswal, and Abhishek Jayaswal.

#### ASSAM POWER GENERATION CORPORATION LTD.

NOTICE INVITING TENDER

NOTICE INVITING TENDER

NOTICE INVITING TENDER

Renders are invited from the intending contractors/firms for execution of "Mandatop Energy Audit of Lakeva Thermal Power Station, Maibella and Namrup Thermal Power Station, Namrup of APGCL" required in Assam Power Generation Corporation Limited under the Department of Power, Govt. of Assam. An amount of Rs. 10,000.00 (Appeas Ten Thousand orby) is to be admired as £MOSIG Society. The Toroid Contractors of the Contractor of

ntract award.

me of the TIA: Chief General Manager (Generalion), APGCL
iddress of the TIA: 3" Floor, Bjulee Bhawan, Paltanbazar, Guwahati-1
Sdr, Chief General Manager (Generation)
APGCL, Bjulee Bhawan, Guwahati-1

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

AGLEATA (A Government of India Enterprise)
ggd. 0ff.: 27, Rajendra Nath Mutharjee Road, Kolkata - 700 001 Phone No. (033) 2245-5841
Fax: (033) 2210-3961 E-mail: rejutojoonsi@blyoonsl.com Wheelds: www.objoonsl.com
NOTICE INVITING E-TENDERS

NOTICE INVITING E-TENDERS

\*Tenders are invited. UNDER THE TUND BY SYSTEM from required vendors for the supply of TMT Bar for Road Over Bridge (ROB-IP-locat all hansel (Finase -1 kill) and RCH has a Charles (Rob-IP-locat all hansel (Finase -1 kill) and RCH has a Charles (Rob-IP-locat all hansel (Finase -1 kill) and RCH has a Rob-IP-located (Rob-IP-located all hansel (Rob-IP-located All hansel (Rob-IP-located All hansel) and Rob-IP-located (Rob-

EKI Power Trading Private Limited (CIN. USJ 169M-12022PT C083157) a Company registered under Companies Act, 2013, is fling a Petition for revocation of Calegory-V Intertact Farding Licance before the Northie Central Electricity Registering Commission, New Dells and a copy of the Central Electricity Registering Commission, New Dells and a copy of the the above Petition, 1 and may be sent that Secretary Central Electricity Regulatory Commission, 3rd and 4th Floor, Chanderlok Building 30, Janpain, New Delh-110001:

## **OSBI** card

#### SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED

CIN: L65999DL1998PLC093849, Website: www.sbicard.com E-mail ID: investor.relations@sbicard.com

Registered Office: Unit 401 & 402, 4<sup>th</sup> Floor, Aggarwal Millennium Tower E-1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi 110 034, India; **Phone**: +91 (11) 6126 8100

Corporate Office: 2<sup>rd</sup> Floor, Tower-B, Infinity Towers, DLF Cyber City, Block 2 Building 3, DLF Phase 2, Gurugram, Haryana 122 002, India; Phone: +91 (124) 458 9803

The Members of SBI Cards and Payment Services Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 10 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020; General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020; General Circular No. 39/2020 dated September 28, 2022; General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021; General Circular No. 39/2020 dated December 8, 2021; General Circular No. 10/2021 dated December 8, 2021; General Circular No. 10/2021 dated December 8, 2022; General Circular No. 29/2024 dated September 19, 2024; General Circular No. 9/2024 dated September 28, 2022; General Circular No. 9/2024 dated September 28, 2022; General Circular No. 9/2024 dated September 28, 2023; General Circular No. 9/2024 dated September 28, 2023; General Circular No. 9/2024 dated September 19, 2024 issued by two Ministry of Corporate Affairs (the "McA Circulars"), the Company, for obtaining the approval of the shareholders by voting through electronic mode (e-voting/remote e-voting") in respect of the business(es) mentioned in the Postal Ballot Notice dated January 02, 2025, has dispatched the said Postal Ballot notice on January 7, 2025 by and only to the said Postal Ballot notice on January 7, 2025 by and whose e-mail addresses are registered with Company/Depository Participant(s)/Depositories/the Registrar & Transfer Agent of the Company
Participant(s)/Depositories/the Registrar & Transfer Agent of

same rrom the above-mentioned websites. In accordance with the MCA Circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelope has not been sent to the shareholders for this Postal Ballot and the shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

As required, the Company is pleased to offer e-voting facility to all its members, to enable them to cast their selectronically. The Company has appointed National Securities Depository Limited (NSQL) for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically. Voting Rights shall be reckned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member(s) as on the Cut-off date and any person who is not a member as on that date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The facility to exercise vote on postal ballot by e-voting, will be available for the following period:

Wednesday, January 8, 2025 (10.00 A.M. IST) Thursday, February 6, 2025 (5.00 P.M. IST)

End of volting : Thursday, February 6, 2025 (5.00 P.M. IST)
During this paried, members of the Company holding early shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Friday, January 3, 2025 may cast their vote electronically e-volting shall not be allowed after 5.00 P.M. on Thursday, February 6, 2025. The e-volting module shall be disabled by NSDL for volting thereafter.

The Board of Directors has appointed Mr. Vineet K Chaudhary (Certificate of Practice no. 4548) Managing Partner of M/s VKC & Associates, Company Secretaries, so ralling him Mr. Mohit K. Dixit (Certificate of Practice no. 17627), Partner of M/s VKC & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a far and transparent manner.

The Results of the Postal Ballot/E-volting will be declared within two working days from the conclusion of remote e-volting. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.sbicard.com and on the website of NSDL i.e. www.sbicard.com and National Stock Exchange of India Ltd. (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and Rallot Notice could not be

To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders, to whom Postal Ballot Notice could not be send due to non-availability of valid e-mail address, the Company has made appropriate arrangements with its Registrar & Share Transfer Agent for registration of e-mail addresses in terms of the above-mentioned Circulars.

The process for registration of e-mail addresses and other details is as under:

Pursuant to relevant circulars the shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the notice could not be serviced may temporarily get their e-mail address registered with the Company's Registers and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Intime Intime India Private Intime India Private Intime Int

For Permanent Registration:

It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail address in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant.

- in respect of physical holding with Company's Registrar and Transfer Agents i.e. MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Pvt. Ltd.) by sending a request in the prescribed form.

Please Contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address and Bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP. In case of physical holding, please contact the RTA of the Company Le. MUFG Inline India Private Limited (formerly known as Link Intime India PvL Ltd.)

n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manua or shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 or send a request revoting@nsdl.com or contact Ms. Pallawi Mhatre. Senior Manager, National Securities Depository Limited, 1731, 376 jaman Chambers, G Block, Plot No-C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051, at the email id – evoting@nsdl.com

Date: January 7, 2025

Place: Gurugram

Payal Mittal Chhabra Chief Compliance Officer & Company Secretary

India's Top Academic Resparchers Shine at ATMAN 2.0 hosted by TIH, IIT Bombay providing lechnical development bridge the gap between cardemic support and lab-to-market guidance. Increase and industry, a proud in control of the financial service of the service of the financial service of the financial service of the serv Numbal, 06. January 2024. ATMAN 2.0 went dedicade for increasors, researchers, and leaders from indisk top institutions to showcase groundbreaking Agri-lof translational research. The event was hosted by Technology Innovation-live (Irih) at III Bombay, it witnessed the participation of deeptech academic researchers from IIT Delhi, IIT Kharagpur, IIT BHU, NIT Warragnal, VMT Repur, etc. A total of 25e deeptech country puriposate of the even saw a creation of a copus of INR 10 Cr. TIH will be funding 7 academic research projects with a grant, alongside

Infosys

#### Infosys Limited

CIN: L85110KA1981PLC013115 Avenue, Electronics City, Hosur Road, Bengaluru Phone: 91 80 2852 0261, Fax: 91 80 2852 0362 investors@infosys.com, www.infosys.com

#### NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and the registered share holder(s) thereof have applied for issue of duplicate share certificate(s).

tor issue of duplicate snare certificate(s). Notice is hereby given that the Company will proceed to issue letter of confirmation in lieu of duplicate share certificate(s) unless a valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this notice. No claims will be entertained by the Company with respect to the original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicates thereof.

Name of Shareholder	Folio No.	Certificate	Distinctive Nos.		No. of
Name of Shareholder		No.	From	То	Shares
	NEEL KRISHNASWAMY ITL000991	145295	537541	537940	400
SUNEEL KRISHNASWAMY		151225	277517753	277518152	400
		2386571	4480096028	4480097627	1600

23865/1 [4480098022 [4480097627] 16000
Any person who hasihave a claim in respect of the said certificate(s) should loge his/herit their claim with all supporting documents with the Company at its registered office. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue Letter of Confirmation in lieu of duplicate share certificate(s) to the person listed above and no further claim would be entertained from any other person(s).

Registered Office: January 07, 2025

For Infosys Limited A.G.S. Manikantha Company Secretary Membership No. A21918

Business Standard

Opinion, Monday to Saturday

to 57575 or email order@bsmail.in

Opinion. Insight Out



0000

# 'केंद्रीय बजट में न हो दिल्ली एचएमपीवी: सतर्कता बरतें राज्य के लिए कोई खास ऐलान'

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की घोषणा

ख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने जुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जनता को रिझाने के लिए किए जाने वाले लोकलुभावन चादों या 'चुनावी रेवड़ी' पर महत्त्वपुण 'चुनावी रेवडी' पर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की है। कुमार ने मंगलवार के। कहा कि इन लोकलुभावन वाटी पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वीकार्य एवं कानूनी प्रावधान किए जाने की जरूरत है। कुमार दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अगले महीने 18 फरवरी को सेवानिवृत्त है। रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीईसी ने रिमोट वोटिंग सम्मलन म साईसा ने रिमाट वीटिंग या दूर रहते हुए भी मतदान की सुविधा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे 30 करोड़ 'लापता' मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्होंने मतदान केंद्र आधारित गिनती की जगह टोटलाइजर सिस्टम' अपनाने पर जोर दिया ताकि किसी खास मतदान केंद्र पर मतदान क सार्वजनिक नहीं हो सके।

सार्वजानक नहीं हो सके। कुगर ने कहा कि चुनाव आयोग कैविनेट सचिव को एक पत्र लिखेगा जिसमें उनसे कहा जाएगा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली से जुड़ा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाए। इस कदम का मकसद सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बजट 1

फरवरा का पश हाना है। चुनावी रेवड़ी के मुद्दे पर सीईसी ने कहा, 'इस संबंध में हमने एक प्रारूप वेवसाइट पर डाल दिया है। अब इस चलन को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान करने का समय आ गया है यह मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हमारे हाथ

फिलहाल बंधे हुए हैं।' चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2022 में चुनाव आचार संहिता में संशोधन मं चुनाव आचार सहिता में सशाधन किया था। इसके तहत आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए उनके चुनावी घोषणा पत्रों में यह जिक्र करना अनिवार्य कर दिया था कि उनके चुनावी वादों के क्या वित्तीय परिणाम होंगे। आयोग ने इस विषय पर राजनीतिक दलों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी और इस मकसद से एक प्रारूप भी जारी किया था।

से एक प्रारूप भी जारी किया था। कुमार ने कहा कि यह परिभाषित करना मुश्किल है कि चुनावी रेवड़ी क्या है और मामला विचाराधीन होने के कारण चुनाव आयोग के हाथ भी इस मामले में पूरी तरह बंधे हैं। कुमार



8 फरवरी को आएंगे परिणाम

देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को चुनावी बिगुल बज गया। यहां की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतटान ालए 5 फरवरी की मतदान होगा जबकि मतों की गिनती तीन दिन बाद 8 फरवरी को की जाएगी।निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

#### बुधवार को मतदान ताकि ज्यादा लोग करें वोट

दिल्ली की सभी 70 विधान सभा सीटों के लिए मतदान 5 फरवरी, (बुधवार)

■ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने जानबूझकर मतदान बुधवार यानी सप्ताह के मध्य में रखा है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए बाहर आएं। साल 2020 में दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए मतदान मंगलवार को हुआ और 62.55 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था

**≡ देश में दो विधान सभा क्षेत्रों के लिए** उपचुनाव भी 5 फरवरी को होंगे। ये हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र और मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र और तमिलनाडु का इरोड विधान सभा क्षेत्र ■ दिल्ली में विधान सभा की कुल सीटें 70 (58 सीटें सामान्य वर्ग के लिए और 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) हैं

■ दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ (15,537,634) मतदाता हैं, जिनमें सरकारी नौकरी वाले 12,776 मतदाता शामिल हैं

■ इनमें 83.49 लाख पुरुष मतदाता, 71.74 लाख महिला मतदाता और 1,261 ट्रांसजेंडर

■ दिल्ली में पहली बार मतदाता बने लोगों (18 से 19 वर्ष उम्र के) की तादाद 2,08,302 है। जबकि 20 से 29 वर्ष उम्र के मतदाताओं की संख्या 25.89 लाख और 100 वर्ष से अधिक उम के तदाताओं की संख्या 830 है

दिल्ली में 13.033 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे

तीन सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि तीन सदस्यीय पाठ ने निर्णय दिया कि लोकलुभावन वार्दों करने पर किसी तरह की 'रीक' नहीं हैं। कुमार ने कहा, 'मेरी नजर में कोई घोषणा किसी मतदाताओं को लुभाने का जरिया है मगर वह किसी के लिए उसका वाजिब हक भी हो सकता है। लिहाजा इस पर कुछ कहना काफी

लिंहाजा इस पर कुछ कहना काफी मुक्किल होगा। हालांकि, कुमार ने कहा कि मतदाताओं को यह जानने का हक है कि राजनीतिक दलों की लोकलुभावन घोषणाओं का राज्य की बिताय स्थिति पर क्या असर होगा और इन्हें पुर कहने के लिए सरकार को कितनी स्कम उधार लेनी

होगी, साथ ही कितना ब्याज चुकाना होगा। कुमार ने कहा, हम आने वाली पीढियों का भविष्य दांव पर नहीं लगा पीड्या का भविष्य दीव पर नहीं लगा सकते। भारत की चुनाव प्रणाली के समक्ष चुनीतियों पर कुमार ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान धुवीकरण का प्रयास काफी नुकसान पहुंचा सकता है जिससे उबर पाना कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि सीमाएं लांघने से बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। बचन का प्रयास कर ता बहतर हागा। सीईसी ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आक्रामक तेवर एवं धुवीकरण से लोग उकता रहे हैं और युवा पीढ़ी चुनावों से दूर हो रही है। कुमार ने विषक्ष को इस आरोप को सरासर बेबुनियाद बताया कि

महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई थी। कुमार ने कहा कि न्यायालयों ने कम से कम 42 मौकों पर कहा है कि इंबीएम के साथ छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती और धांधली के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। सीईसी ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को बदलना असंभव है। उन्होंने कहा कि गलत और बेवजह अफवाह फैलाई जा रही है कि शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत बढ जाता है।

जाता है।
कुमार विहार-झारखंड कैडर के
1984 वैच के आईएएस अधिकारी
हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने
के बाद वह आत्मिक शांति चाहेंगे
और अध्ययन आदि करेंगे।

देश में ब्रामन मेटान्यूमोवायरस (एयएमपीवी) के मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों से सांस से जुड़ी वीमारियों की निगरती बढ़ाने और यह बीमारी कैलने से रोकने के लिए लोगों को बात कालकरात बढ़ाने को कहा है। देश में सांस संकंधी वीमारियों की मौजूदा स्थित और सांवेजनिक बात्मकर उपायों को जावजा लेने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक समीक्षा देवक हुई। इस बैटक में स्वास्थ्य सार्थाव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया एचएमपीवी से आम जनता के लिए कोई चिंत की बात नहीं है क्योंकि 2001 से ही इसकी मौजदगी दनिया में रही है।

मोजूर्गी दुनिया में रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकांकि वयान में कहा, 'देश सांस में जुड़ी बीमार्ग में किसी भी संभावित बुद्धि के लिए अच्छी तरह तैयार है।' बैठक योग में एचएमपीयी मामर्गों में बुद्धि वैदाजनक खड़ाने के बीच बुलाई मां डॉन्फिक वाद देश में एमएमपीयी के पांच मामर्ग को भुष्टि हुई। इसमें कर्नाटक और तीमलनाडु में दो-दो मामर्ल वाया गुजरात के अहमदाबाद में एक मामर्श को पुष्टि हुई।

भुष्ट हुं। महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपीवी के दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं और दोनों मरीजों के नमूने नागपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एस्स) और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान



अहमदाबाद में अलग वार्ड बनाया गया

संस्थान (एनआईवी) को भेजे गए हैं।

संस्थान (एनआईवा) को भज गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सांस संबंधी कई बायरसों में से एक एचएमपीवा है जो हर उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है और आमतौर पर सर्दियों के महीने में और वसंत के महीने की शुरुआत में इसमें बृद्धि देखी जाती है। इसमें कहा गया, 'वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का और सीमित होता है और ज्यादातर संक्रमित लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं।'

अपना आप हो जाता हो। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एन्स्लूएंजा जैसी बीमारी और सांस से जुड़ी गंभीर संक्रामक बीमारी की निगरानी बढ़ाने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस

बात को दोहराया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) से मिले आंकड़े, देश में कहीं भी इन्मलूएंजा और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी के मामले में असामान्य बढ़ोतरी के संकेत नहीं देते हैं।

नक्षा दत्त है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वायरस रिसर्च ऐंड डायग्नॉस्टिक लैबोरेटरी (बीआरडीएल) नेटवर्क में इलाज की पर्याप्त

सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते यह घोषणा की थी कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह वायरस भारत के लिए नया नहीं है। मामले की वायरस भारत के लिए नया नहीं है। मामले की जानकारि रखने याले एक अधिकारि ने बताया, 'भंजात्य के एक संकृत निगरामी सह ने पहले ही एचाएमीवी को जांच के लिए, आईसीएम आत्र टिवर्क के तहत प्रयोगशाला औं को संख्या बढ़ाने बढ़ाने को सिम्प्राने को वह ताकि पूरे वर्ष इससे जुड़े रखनों को निगरानी हो सके! केंद्र सालक के हिस्मानिर्देशों को देखने हुए कर्नाटक, दिस्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे कई गुजरों में स्वाध्याविष्मा निश्चित की निगरानी करनी एक स्वधानिर्देश के स्वधानिर्देश की हिस्सा करने प्रकृत स्वधानिर्देश के स्वधानिर्देश को उत्तराखंड जैसे कर्म गुजरा के देखने हुए कर्नाटक, स्वस्ता के अध्यावनी भी जारी की है। कर्म गुजरा के अध्यावनी भी जारी की है। कर्म गुजरा अध्यावनी के अध्यावनी भी आहंसोलेट करने के लिए कहा है। (साध्य में एजेंसियां)

#### **OSBI** card

#### एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड

सीआईएन: L65999DL1998PLC093849, वेबसाइट: www.sbicard.con

ईमेल आईडी: investor.relations@sbicard.com

पं**जीकृत कार्यालय**ः यूनिट 401 और 402, चौधा तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर, ई-1,2,3, नेताजी सुभाष प्लेस, वज़ीरपुर, नई दिल्ली 110 034, भारत; फ्रोन: +91 (11) 6126 8100 कॉर्पोरेट कार्यालयः दूसरा तल, टावर-बी, इन्फिनिटी टॉवर्स, डीएलएफ़ साइबर सिटी, ब्लॉक २ बिल्डिंग ३, डीएलएफ़ फ़ेज़ २, गुरुत्राम, हरियाणा 122 002, भारत; फ्रोन: +91 (124) 458 9803

एसबीआई काईस एंट्र पेमेंट शर्तिकेल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतड़ाव सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनयम, 2013 ("अधिनेयम") की शारा 110 के साथ पठित कंपनी एक्शन और प्रसासना निया 2016 के अनुसार एवं शोपिट कार्य संसार प्रहारा सारी सामान्य परिपन्न ने 1,40200 दिनांक 0.8 और 2020, सामान्य परिपन्न ने 1,170200 दिनांक 15 अप्रेल 2020, सामान्य परिपन्न ने 1,170200 दिनांक 15 अप्रेल 2020, सामान्य परिपन्न ने 1,170200 दिनांक 15 स्वेल 2020, सामान्य परिपन्न ने 1,170200 दिनांक 15 दिनांक 16 दिनांक 17 दिनांक 18 दिनांक 18

डाक मतपत्र की सूचना और मतदान के निर्देश, कंपनी की वेबसाइट www.bicard.com पर और नेघनन विक्योरिटीड़ डिपॉजिटरी तिमिटेड (एनएस.डीएल) की वेबसाइट पानी www.evoling.nsdl.com पर और उन स्टॉक एक्सवेंड्स की वेबसाइटी के संगत अनुभागी पर भी उपलब्ध हैं जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे कि www.bseindia.com और www.nseindia.com। दिन चीपरधारकों को उस्त सूचना घादा नहीं हुई है वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनतोड़ कर सकते हैं।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, डाक मतपत्र सूचना की भौतिक कॉपी, डाक मतपत्र फॉर्म और पहले से चुकता-घुत्क वाले व्यावसायिक जवाब लिफ़ाफे, शेयरधारके को इस डाक मतदान के लिए नहीं भेजे गए हैं और शेयरधारकों को उनकी सहमति या असहमति केवल रिमोट ई- मतदान प्रणाली के ज़रिए ही देनी होगी।

जैसा कि आवश्यक है. कंपनी सभी सदस्यों को ई- मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकें। कंपनी ने ई-मतदान की सुविध 

ई-मतदान द्वारा डाक मतपत्र पर मतदान की सुविधा निम्नलिखित अवधि के लिए उपलब्ध होगी:

मतदान का आरंभ : बुधवार, 8 जनवरी 2025 (प्रातः 10.00 बजे भारतीय समयानुसार)

मतदान की समाप्ति : गुरुवार, 6 फरवरी 2025 (शाम 5:00 बजे भारतीय समयानुसार)

इस अवधि के दौरान, कंपनी के ऐसे चदाय जो तय निर्धारित तिथि पर यानी चुकवार, 3 जनवरी 2025 को भीतिक स्तरूप में या डीमटेरियलाइज स्करण में इकिटी चंघर के धारक है, वे इसेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। ई-मतदान की अनुमति मुरुवार, 6 फरवरी 2025 को शाम 5,00 वजे के बाद नहीं होगी। इसके बाद एगएसडीएत द्वारा ई-मतदान प्रणाली को मतदान के तिए निक्रिय कर दिया जाएगा।

निदेशक मंडल ने डाक मताप्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचादित करने के लिए मेसर्स वीकेसी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेकेटरीज़, के प्रबंधन साझेदार श्री विनीत के, चौधरी प्रेक्टिस प्रमाणपत्र नं. 4548) या उनकी अनुपस्थिति में, मेसर्स वीकेसी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेकेटरीज़, के साझेदार श्री मोहित के, दीक्षित ऐक्टिस प्रमाणपत्र नं. 17827) को संतीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

हाक मतपत्र/ई.मतदान के परिणाम, रिमोर ई.मतदान समाप्त होने के दो कार्य दिवस के अंदर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, संबोधक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की केबसरर-www.sbicard.com पर और पत्रपरसीयल की वेबसाइर पानी www.soviing.nsdl.com पर प्रतर्शित किए जाएंगे और उनकी सूचना बीएसई लिमिटेड (www.bsiandis.com) और नेपनान स्तर्रेण कर्मकर्ण अर्था कृषिया लिमिटेड (www.nsidia.com) की दी जाएंगे की

उन प्रेयरधारको द्वारा रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सक्ष्म बनाने के लिए, जिन्हें मान्य ईमेल आईडी की अनुपलकात की वजह से डाक मतपत्र सूचना नहीं भेजी जा सकी है, केपनी ने अपने रजिस्हार और रोयर ट्रांसफर एजेंट के साथ ऊपर उत्सिखित परिपत्रों के अनुरूप ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए उपयुक्त

ईमेल आईडी और अन्य विवरण के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है.

#### अस्थायी पंजीकरण के लिए:

संगत परिपजों के अनुवार जिन शेपरधारकों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं और परिपामस्वरूप उन्हें डाक मतपत्र की सूचना नहीं नेवी जा सकी है. वे केपनी के रिकेट्स और धेपर ट्रीकर एवंट, एमपुराजजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट निमिटेड (भूतपूर्व तिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), द्वारा इस तिक https://liplweb.lirkinime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html पर जाकर एवं बताई गई पंजीकरण प्रक्रिया का पादन करके अपनी ईमेल आईडी का अस्वार्ती पंजीकरण करवा सकते हैं।

ईमेल सफलतापुर्वक पंजीकृत हो जाने के बाद, पोपरधारक को एनएसडीएत की और से डाक मतपत्र सूचन की सॉफ्ट कॉपी और ई-मतदान करने के लिए उपयोगकर्ती आईडी और पायवर्ड के साथ-साथ ई-मतदान की प्रक्रिया प्राप्त होगी। ईमेल आईडी के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए योगस्पारक nthebjedse@inthinnec.o.in परिवार कनाई के और ‡-मतदान में संबंधित प्रश्न किए प्रपास्त्रीपत की प्रणालुकारधां.com रविका स्वन्न हैं

#### स्थायी पंजीकरण के लिए:

स्पष्ट किया जाता है कि स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्य कृपया अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण

डीमेट होस्डिंग के संबंध में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट द्वारा निर्देशित प्रक्रिया कम पातन करके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के साथ करें। भौतिक होस्डिंग के संबंध में, कंपनी के रिकेस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एमयूएफची इनटाइम इंडिया प्राइवेट हिमिटेड (भृतपूर्व लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट निमिटेड), को अपना आवेदन इस हेतु बनाये गए पत्त्र के ज़िरये भेजें।

#### बैंक विवरण का पंजीकरण:

कृपया अपने डिपॉफिरटी पार्टिसिपेट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सुझायी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमेट खाते में अपनी ईमेल आईडी और वैंक खाता विवरण दर्ज करें। भीतिक होल्डिंग की स्थिति में, कृपया कंपनी के आरटीए यानी एमपूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (भृतपूर्व लिंक इनटाइम इंडिय

किसी संदेह या प्रश्न विश्वति में, आप www.evoting nsdi.com के डाउनतोड सेक्शन में उपतब्ध योपस्थारकों के लिए असस पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्सू) और योपस्थारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुआर देश सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdi.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुधी सन्दर्ध मेंतु ते सेष्ट्र प्रश्न अंगत्वत सिक्योरिटीज डिपॉगिस्टरी विगिटिड, 2301, सीसरा तत्र मनम वैष्यस्ं, जी ब्लॉक, त्यांट सं - सी-32, बांदा कुर्त्त कॉप्टनेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई-400051 से ईमेल आईडी - evoting@nsdi.com के ज़रिए संधक्त कर सकते हैं।

एसवीआई कार्डस एंड प्रेमेंट सर्विसेज निमिटेड के निए

पायल मित्तल खावडा मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव

# तिब्बत में 6.8 तीव्रता के भुकंप से 126 की मौत

तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से एक के निकट मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 126 लोगों की मौत और 188 व्यक्ति घायल हो गए। पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसके कारण इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने अपने

ाकर, या जिसक करांग इसारत हिस्ते हागी और तोग आपने अपने परों से बादर निकल आए संत्रीय अपादा स्वत्युखात्व के अनुसार, मंगलबार का सुबद 9 बजकर 5 मिनट (चीन के सम्प्रानुसार) एत तिकत रावास्त्र केन्न के शिगाजे शहर को डिंगरी काउंटी में भूकंप के झटके पहसूस किए गए। अमेरिकी भूगभे सर्वेदणगे भूकंप को तीवता 7.1 बताई है। चीन के सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्दुआ' की खबर के अनुसार, भूकंप के कारण मंगलबार को अपराहन 3 बजे तक (स्थानीय समयानुसार) 95 लोगों की मीत की पृष्टि हुई कै और 130 अच्या घावल हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति भी चिनकिंग ते प्रभावित के शों में राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए हहत और बचाव कार्य चलाने के लिए हहत और स्वचाव कार्य चलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के आदेश दिए। शी ने घायलों कर ने कं आदेश हिए। शो ने घावलों पारंपिक सीट है, जो तिन्द्यती बीद के उपचार किए हार स्थान प्रयास करने का आदेश दिवा तथा दिवीयक को परेचा लागा, आध्यातिक एक अपदाओं (भूकेप के वाद संभावित दलाई लागा के बाद ट्रासरे ने का अपदाओं) को रोकने, प्रभावित न्यासिक समुच्यत पुनवीस तथा स्केश का दक्ष कार्यों को अपना देश करने के लिए। प्रयास करने का आग्रह किया।

पूकंप के बाद, चीन पूकंप सके से अपने 127 गांव हैं। भाषा के उपचार के लिए हरसंभव प्रयास क उपचार के लिए हरसभय प्रयास करने का आदेश दिया तथा द्वितीयक आपदाओं ( भूकंप के बाद संभावित आपदाओं ) को रोकने, प्रभावित निवासियों के समुचित पुनर्वास तथा इसके बाद के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रयास करने का



प्रशासन ने स्तर-हो की आपात सेवा

प्राधिकारियों ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र में करीब 22,000 आपदा राहत सामग्री भेजी है, जिनमें तंबू, कोट, रजाई और फोल्डिंग विस्तर के साथ-राजांई और फील्डिग विस्तर के साथ-साथ ऊंजाई वाल और टर्ड है और लिए विशेष राहत सामग्री भी शामिल है। घटनास्थल पर 1,500 से अधिक स्थानीय अनिशामन करियों और बचावकरियों को भी भेजा गया है। शिगाजे को शिगास्त के नाम से भी जाना जाता है जो भारत को सीमा के करीय है। शिगास्ते का तिल्वत के सबसे पवित्र शहरों में से एक मान जाता है। यह पंचेन लामा की पारंपरिक सीट है, जो तिब्बती बौद्ध

# प्रथम भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता

### आतंकवाद-रोधी सहयोग बढाने पर सहमति जताई

भारत और मलेशिया ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर चर्चा की तथा आतंकवाद-रोधी एवं कड़रपंथ-विरोधी कार्रवाई और समुद्री



कहुरांध-विरोधी कार्रवाई और समृति सूरका के क्षेत्र में सहयोग बदाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रथम भारत-सारीशया सुरक्षा बार्त की सह-अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा स्वाताकार (एपएसए) अजीत डोभारत की एप्लीयम् अस्ति स्वाताकार (एपएसए) अजीत डोभारत की एप्लीयम् अस्ति स्वाताकार प्रवादा ने कार्मिया प्रक्रम परिषद के महानिदेशक राज दातो नुशीरवान विन्न जैनल आविदीन को। मंत्रालय ने एक वयान्य में कहा कि वार्ता के देशा, उन्होंने महन्यपूर्ण व्हानी के हिल्स सहयोग बदाने के दर्सिकों पर भी चर्चा की। साथ ही, वार्षिक बैठकें आयोजित कर वार्ता को

#### APPOINTMENTS

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्वर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार का प्रवान) पंजीकृत कार्यालयः इसी मंजिल, प्लेट ए और सी, कार्यालय ब्लॉक 2, एनसीसीसी टावर्स, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110 023

आईआईएफसीएल में विभिन्न पदों के लिए सीधी गर्ती आईआईएकसीएत भरता सरकार की उन्हें स्वातिक माती कंपनी है जिसकी श्यामा 2006 में मात्रकार प्रत्या प्राप्त प्रत्या किया प्रत्या किया की तीर्वाचिक वित्रीय सम्प्रपार प्रत्य करने करने हैं दिए की गई थी। एक वीर्याय किया परिवास के मात्र की स्वातिक की उत्पादक्तिक की की प्रत्या की स्वातिक क्ष्य में होती की स्वातिक स्वातिक की स्वातिक की स्वातिक की स्वातिक की स्वात

कर सा	900	गत का प्रकार	विवित्तको की जून संस्था वर्ग		
1	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ)	संविदा पर			
2	मुख्य रजनीति अधिकारी (सीएसओ)	शंविदा पर	01		
3	सहायक महाप्रबंधक (ग्रेड सी)	नियमित	05		
ठाक द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि			जनवरी ३१. २०२५ (शुक्रवार)		
देख्त र	वेज्ञावन के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट: <u>h</u>	ttps://www.life	Lin (भर्ती अनुनाग) पर जाएँ।		